



### सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की चुनिंदा फैसिलिटीज के लिए, 22 सितम्बर से वैक्सीनेशन के प्रमाण की जरूरत होगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 सितम्बर, 2021) – कुछ फैसिलिटीज में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन के प्रमाण की जरूरत वाले, ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) के [रेग्युलेशन्स \(regulations\)](#) और [गाइडेंस \(guidance\)](#) के मुताबिक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में बुधवार, 22 सितम्बर से, रेक्रिएशन, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी फैसिलिटीज सहित, सिटी के स्वामित्व वाली चुनिंदा सेवाओं तक पहुंच के लिए वैक्सीनेशन के प्रमाण की जरूरत होगी। छूटें, ओनटैरियो सरकार के रेग्युलेशन्स के मुताबिक दी जाएंगी।

प्रोविंसियल रेग्युलेशन और गाइडलाइनों के मुताबिक, इनडोर क्षेत्रों में वैक्सीन सर्टिफिकेशन आवश्यक होंगे, जैसे:

- वाटरपाक्स और निजी शारीरिक फिटनेस ट्रेनर्स सहित, स्पोर्ट्स और रेक्रिएशनल फिटनेस गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाने वाली फैसिलिटीज
- वे फैसिलिटीज, जहां दर्शक कार्यक्रम देखते हैं
- कान्फरेंस सेंटर्स या कन्वेंशन सेंटर्स सहित मीटिंग और कार्यक्रमों वाले स्थान
- कोन्सर्ट स्थान, थिएटर और सिनेमा
- कैसीनो, बिंगो हॉल्स और अन्य गेमिंग संस्थान
- रेस्टोरेंट, बार्स और खानपान वाले अन्य संस्थान
- खानपान वाले अन्य संस्थानों के इनडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्र, जहां डांस फैसिलिटीज प्रदान की जाती हैं, इनमें शामिल हैं, नाइटक्लब्स, रेस्टो-क्लब्स और इन जैसे अन्य संस्थान

इनके लिए वैक्सीनेशन के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी:

- लाइब्रेरियां, कोर्ट हाउस या सिटी की जरूरी सेवाओं तक पहुंच वाले स्थान, जैसे टैक्स बिलों का भुगतान करना या बिल्डिंग परमिट प्राप्त करना
- किसी आयोजित स्पोर्ट में हिस्सा लेने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, हालांकि माता-पिता और अभिभावकों सहित दर्शकों के लिए प्रवेश हेतु वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाना आवश्यक होगा
- डे कैंपस, चाइल्ड केयर और सोशल सर्विसिज के लिए प्रयोग किए जाने वाले किराए पर लेने वाले स्थान
- शादी संबंधी समारोह, धार्मिक सेवाएं/रस्में और अंतिम संस्कार (केवल सेरेमनी)
- निजी रिहायशों में इकट्ठ
- आउटडोर कार्यक्रम



वैक्सीन सर्टिफिकेट रेग्युलेशन्स लागू करने में कारोबारियों की सहायता के लिए, ओनटैरियो सरकार के [कारोबारियों के लिए मार्गदर्शन \(Guidance for Businesses\)](#) संसाधन उपलब्ध हैं। पूरे विवरण [ओनटैरियो सरकार के रेग्युलेशन्स \(Government of Ontario regulations\)](#) में देखे जा सकते हैं।

### सिटी की फैसिलिटीज में वैक्सीनेशन के प्रमाण की स्वीकृत विधियां

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की फैसिलिटी में जाने के समय, निजी पहचान के दस्तावेज के साथ-साथ, वैक्सीनेशन स्थिति के प्रमाण की निम्नलिखित विधियां स्वीकार की जाएंगी:

1. इम्युनाइजेशन वैक्सीन रसीद का प्रमाण: इसे प्रांत के ऑनलाइन [कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल \(COVID-19 Vaccine Portal\)](#) से या प्रोविंसियल वैक्सीन बुकिंग लाइन (Provincial Vaccine Booking Line) को 1.833.943.3900 पर फोन करके प्राप्त किया जा सकता है।

2. ओनटैरियो द्वारा तैयार की गई डिजिटल वैक्सीन रसीद: ओनटैरियो सरकार यह विकल्प, अक्टूबर 2021 में पेश कर रही है। डिजिटल वैक्सीन रसीद, आपके मोबाइल फोन में रखी जा सकती है और यह दिखाने के लिए आसानी से प्रयोग की जा सकती है कि आपने वैक्सीन लगावा ली है। उपलब्ध होने पर इस विकल्प के बारे में अन्य जानकारी प्रदान की जाएगी।

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)